

MPS Infotecnics Limited

CIN: L30007DL1989PLC131190
An ISO 9001 - 2008 Company



To,

Date: 13th February, 2021

The Manager-Listing

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex (E),
Mumbai-400051

The Manager-Listing

BSE Limited
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

NSE Symbol-VISESHINFO

Scrip Code-532411

Sub: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,


With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in accordance with Reg.47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published its Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020 in newspapers namely, 'Business Standard' (English and Hindi) dated 13th February, 2021.


The same will be available on the website of the Company: www.mpsinfotecnics.com.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You

Yours faithfully
For MPS Infotecnics Limited


Garima Singh
Company secretary



Corporate Office : B-55, Sector - 65, Noida (U.P.)-201301
Ph: +91-0120-4713900, Fax: +91-0120-4324040
Regd. Office : 703, Arunachal Building,
19, Barakhamba Road, New Delhi-1
Ph.: 011-43571044, Fax: 011-43571047
E-mail : info@viseshinfo.com

Jay SPEAKS

Insight story

Business Standard
Insight Out

To book your copy, call 022 4027 5432 or SMS reaches to 57575 or email us at order@bsmail.in

bsindia bsindia www.business-standard.com

MPS INFOTECNICS LIMITED
CIN : L30007DL1989PLC131190
Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001

Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2020 (INR in Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended			Year Ended
		31-Dec-20 Un-audited	30-Sep-20 Un-audited	31-Dec-19 Un-audited	31-Dec-20 Un-audited	31-Dec-19 Un-audited	31-Mar-20 Audited	
1	Total Income from operations (net)	9.03	10.23	347.24	26.73	803.96	814.19	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	(136.22)	(143.79)	(113.26)	(420.82)	(402.76)	(561.66)	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(132.92)	(140.49)	(211.61)	(410.92)	(697.81)	(330.93)	
4	Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes)	(133.23)	(140.81)	(211.43)	(411.87)	(697.27)	(332.20)	
5	Equity Share Capital (Face Value Rs. 1/- per share)	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	
6	Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity)							
7	Earning Per Share (Basic)	(0.00)	(0.004)	(0.006)	(0.01)	(0.018)	(0.009)	
8	Earning Per Share (Diluted)	(0.00)	(0.004)	(0.006)	(0.01)	(0.018)	(0.009)	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com.

For MPS Infotecnics Limited
Sd/-
Peeyush Kumar Aggarwal
Chairman
DIN:00090423

Place : New Delhi
Date : 12.02.2021

Sonal Adhesives Limited
Regd Off:- Plot No 28/1A, Village Dheku, Takai Adoshi Road, Off. Khopoli Pen Road, Tal. Khalapur, Dist.Raigad - 410203 Maharashtra CIN: L02004MH1991PLC064045
Phone.: 91 2192 262620, Email id: info@sonal.co.in, Website: www.sonal.co.in

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Standalone				
		Quarter Ended		Nine Months ended		Year ended
		31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	412.65	854.24	1093.56	3288.68	
2	Net Profit/ (Loss) from the Period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(72.42)	(40.32)	(101.40)	(253.96)	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(52.65)	(38.55)	(88.16)	(187.68)	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(52.65)	(38.55)	(88.16)	(187.68)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)*	(53.56)	(38.37)	(89.33)	(188.48)	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each fully paid up)	606.10	606.10	606.10	606.10	
7	Earnings per share (of Rs.10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic (₹)	(0.87)	(0.63)	(1.45)	(3.10)	
	(b) Diluted (₹)	(0.87)	(0.63)	(1.45)	(3.10)	

* The Ind AS as prescribed in Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 is applicable to the Company w.e.f. financial year 2017-18

Notes:

- The above Results for the year ended 31st December, 2020 have been reviewed by the Auditor & taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 12th February, 2021.
- This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- In the opinion of the Board of Directors, there is only one Major segment, therefore, has only one reportable segment in accordance with Ind AS 108 "Operating Segments".
- The Ind AS compliant financial results, pertaining to the period December 31, 2020 have not been subject to limited review or audit. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that such financial results provide a true and fair view of its affairs.
- As intimated by the company's Registrars, the investor's complaints pending as on 31 December 2020 and as on 30 September 2020 were Nil.
- The Company has considered the possible effects that may arise out of the still unfolding Covid-19 pandemic on the carrying amount of property, plant and equipment including intangible assets, inventories, trade receivables, other financial assets, other assets etc. For this purpose the Company has considered internal and external sources of information up to the date of approval of the standalone financial results including economic forecasts, market value of certain assets etc. Based on the current estimates, the company does not expect any significant impact on such carrying values. The Company will continue to closely monitor for any material changes to future economic condition.
- The outbreak of COVID-19 pandemic across the globe and in India and consequential nationwide lockdown since March 24, 2020 has caused a slowdown in economic activities. The management has assessed the potential impact of COVID-19 on the company and based on its review there is no significant impact on its financial results on a medium and long term basis. Sales during the Quarter ended June, 2020 was majorly impacted due to the national lockdown and consequently production / sales were badly hit. However, the same has improved from the Second Quarter onwards. The Company is closely monitoring any material changes to future economic conditions.
- Previous quarter's / year's figures have been regrouped / reclassified and rearranged necessary to correspond with the quarter's / year's classification / disclosure.

For Sonal Adhesives Ltd
Sd/-
Sandeep Arora
Managing Director
DIN No: 00176939

Place: Khopoli
Date : 12th Feb, 2021

Manaksia Steels Limited
AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

Corporate Identity Number: L27101WB2001PLC138341
Registered Office : Turner Morrison Building, 6, Lyons Range, 1st Floor, Kolkata - 700001
E-mail: info@manaksiasteels.com, Website: www.manaksiasteels.com
Phone: +91-33-2231 0055 / +91-33-2231 0056

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
	31th December 2020	31th December 2020	31th December 2019
Total Income from Operations	11,243.78	38,747.41	17,028.35
Net Profit/(Loss) before taxes	860.08	2,357.09	407.67
Net Profit/(Loss) after taxes	692.25	1,879.70	265.11
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax]	1,184.81	2,626.32	255.40
Equity Share Capital	655.34	655.34	655.34
Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	-
Earnings per share (of ₹ 1/- each) (Not annualised):			
(a) Basic (₹)	1.06	2.87	0.40
(b) Diluted (₹)	1.06	2.87	0.40

Key numbers of Standalone Financial Results :

(₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
	31th December 2020	31th December 2020	31th December 2019
Total Income from Operations	9,523.42	28,868.67	16,189.77
Net Profit/(Loss) before taxes	692.63	1,858.46	555.50
Net Profit/(Loss) after taxes	524.80	1,381.07	412.93

Notes :

- The Financial Results of the Company for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2020 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 12th February, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of these results.
- The Consolidated Financial Results comprise of Manaksia Steels Limited, its wholly owned subsidiary, Technomet International FZE and its step-down subsidiaries, Federated Steel Mills Limited, Far East Steel Industries Limited and Sumo Agrochem Limited.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.manaksiasteels.com
- The COVID-19 pandemic has rapidly spread across the world as well as in India and has caused shutdown of the plant and all offices from March 24, 2020. The Group has resumed operations in a phased manner in line with the directives of the respective Local Government. The management does not see long term risks in the Group's ability to continue as a going concern and meeting its liabilities as and when they fall due. The Management has also evaluated the recoverability of receivables and realisability of inventory on hand based on subsequent realisations and customer orders respectively. However, given the uncertainties associated with the eventual outcome, nature and duration of the pandemic, the impact may be different from that estimated as on the date of approval of these financial statements.

For and on behalf of the Board of Directors
Manaksia Steels Limited
Sd/-
Varun Agrawal
(Managing Director)
DIN - 00441271

Place : Kolkata
Date : 12th February, 2021

Manaksia Limited

Corporate Identity Number: L74950WB1984PLC038336
Registered office : Turner Morrison Building, 6 Lyons Range, Mezzanine Floor, North-West Corner, Kolkata - 700001
E-mail: investor.relations@manaksia.com, Website: www.manaksia.com
Phone: +91-33-2231 0055, Fax: +91-33-2230 0336

EXTRACT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
	31st December, 2020	31st December, 2020	31st December, 2019
Income from Operations	21718.82	62723.35	20103.92
Total Revenue	22619.82	65044.79	21874.42
Net Profit/(Loss) before taxes	3047.92	7926.63	1881.48
Net Profit/(Loss) after taxes	2603.76	6082.38	938.99
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax]	1730.63	(508.67)	2949.52
Equity Share Capital	1310.68	1310.68	1310.68
Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	0.00	0.00	0.00
Earnings per share (of ₹ 2/- each) (Not annualised):			
(a) Basic (₹)	3.97	9.28	1.43
(b) Diluted (₹)	3.97	9.28	1.43

Key numbers of Standalone Financial Results :

Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
	31st December, 2020	31st December, 2020	31st December, 2019
Income from Operations	1150.53	2055.01	638.82
Total Revenue	1233.86	2290.92	5194.15
Net Profit/(Loss) before taxes	(56.63)	(338.77)	4356.57
Net Profit/(Loss) after taxes	(62.51)	(344.44)	3561.32

Notes :

- The Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December 2020 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 12th February 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of these results and the results are being published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- Reviewed Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and nine months ended 31st December, 2020 are available at the Company's website www.manaksia.com and websites of all Stock Exchanges, where the Equity shares of the Company are listed.
- Comparative figures have been rearranged / regrouped wherever necessary.
- The COVID-19 pandemic has rapidly spread across the world as well as in India and has caused shutdown of the plant and all offices from March 24, 2020. The Group has resumed operations in a phased manner in line with the directives of the respective local government. The Group's management has made initial assessment of likely adverse impact on business, and believes that the impact is likely to be from short to medium term in nature. The management does not see long term risks in the Group's ability to continue as a going concern and meeting its liabilities as and when they fall due. The Management has also evaluated the recoverability of receivables and realisability of inventory on hand based on subsequent realisations and customer orders respectively. However, given the uncertainties associated with the eventual outcome, nature and duration of the pandemic, the impact may be different from that estimated as on the date of approval of these financial statements.
- During the nine months ended 31st December 2020, there has been devaluation in "Niara", hence previous period figures are not comparable in consolidated results.

For and on behalf of the Board of Directors
Manaksia Limited
Sd/-
Suresh Kumar Agrawal
(Managing Director)
DIN- 00520769

Place : Kolkata
Date : 12th February, 2021

RISHI LASER LIMITED
CIN : L99999MH1992PLC066412
612, V. K. Industrial Estate, 10-14 Pais Street, Byculla (W), Mumbai 400 011.
Tel. No. : (022) 23074585 / 23075677. Fax No. (022) 23080022 E-mail : rcli.mumbai@rishilaser.com, investors@rishilaser.com, Website : www.rishilaser.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2020

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Consolidated						Standalone					
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended		
		31.12.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)		31.03.2020 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)		31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Revenue from Operations	2,204.03	1,637.46	2,035.04	4,630.80	7,082.16	9,197.13	2,196.99	1,633.85	2,026.67	4,619.69	7,059.93	9,116.14
2	Profit / (Loss) before Tax	(67.47)	(122.16)	(189.73)	(425.35)	513.04	(749.09)	(65.72)	(120.00)	(187.26)	(417.51)	(504.47)	(784.93)
3	Profit / (Loss) after Exceptional Items but before Tax	(67.47)	(122.16)	(189.73)	(425.35)	513.04	(253.99)	(65.72)	(120.00)	(187.26)	(417.51)	(504.47)	(289.83)
4	Profit / (loss) for the period	(69.67)	(129.11)	(75.48)	(445.17)	72.06	(226.12)	(67.87)	(126.90)	(72.91)	(437.18)	80.94	(261.67)
5	Total Comprehensive Income for the period	(66.88)	(131.84)	(72.88)	(441.61)	45.23	(305.95)	(65.08)	(129.63)	(70.31)	(433.62)	54.11	(341.50)
6	Paid up equity share capital (Face Value of ₹ 10/- each)	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26	919.26
7	Other Equity excluding Revaluation Reserve						241.88						257.75
8	Earnings per equity share (Face Value ₹ 10 each):												
	Basic (In ₹)	(0.76)	(1.40)	(0.82)	(4.84)	0.78	(2.46)	(0.74)	(1.38)	(0.79)	(4.76)	0.88	(2.85)
	Diluted (In ₹)	(0.76)	(1.40)	(0.82)	(4.84)	0.78	(2.46)	(0.74)	(1.38)	(0.79)	(4.76)	0.88	(2.85)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 12th February, 2021 and the Statutory Auditor has conducted "Limited Review" of the same pursuant to Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- The financial results for the quarter and Nine months ended December 31, 2020 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The consolidated financial results include the financial statement of one subsidiary viz. Rishi Vocational Education Pvt. Ltd.
- The previous period's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.
- The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website and on www.rishilaser.com
- World Health Organisation (WHO) declared outbreak of COVID-19 a global pandemic on March 11, 2020. Consequent to this, Government of India declared lockdown which had impacted the business activity of the group in first quarter. Accordingly results of Nine months ended on December 31, 2020 are of comparable to previous Nine months ended on December 31, 2019 on account of restrictions in business activity caused due to COVID 19 pandemic during the first quarter.

For RISHI LASER LIMITED
Sd/-
Harshad Patel
Managing Director
DIN: 00164228

Place : Mumbai
Date : 12th February, 2021

COMPUAGE INFOCOM LIMITED
CIN: L99999MH1999PLC135914
Reg. Off.: D-601/602&G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon, Mumbai -400063.
Tel: 022-67114444 | Fax: 022-67114445 | Website: www.compuageindia.com

AN EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2020

(Rs. in Lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended		Nine Months ended		Year ended	Quarter ended		Nine Months ended		Year ended		
		31.12.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)		31.03.2020 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)		31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from operations (net)	101,303.07	109,020.58	97,897.54	266,425.80	320,085.82	424,923.40	101,303.07	109,020.58	97,897.54	266,425.80	320,085.82	424,923.40
2	Net Profit / (Loss) for period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	805.99	896.81	724.65	1,725.95	2,674.35	4,020.20	805.99	896.81	724.65	1,725.95	2,674.35	3,995.13
3	Net Profit / (Loss) for period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	805.99	896.81	724.65	1,725.95	2,674.35	4,020.20	805.99	896.81	724.65	1,725.95	2,674.35	3,995.13
4	Net Profit / (Loss) for period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	612.47	681.11	543.49	1,311.18	2,005.76	3,076.02	612.47	681.11	543.49	1,311.18	2,005.76	3,050.95
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	612.47	681.11	543.49	1,311.18	2,005.76	2,863.05	612.47	681.11	543.49	1,311.18	2,005.76	2,837.98
6	Share Capital	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52	1,299.52
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	18,618.07	18,618.07	16,332.41	18,618.07	16,332.41	18,618.07	18,643.92	18,643.92	16,380.11	18,643.92	16,380.11	18,643.92
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs.2/-each)												
	Basic :	0.94	1.05	0.84	2.02	3.09	4.41	0.94	1.05	0.84	2.02	3.09	4.37
	Diluted:	0.94	1.05	0.84	2.02	3.09	4.41	0.94	1.05	0.84	2.02	3.09	4.37

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on the Company's website www.compuageindia.com
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th February, 2021.

For Compuage Infocom Limited
Sd/-
Atul Mehta
Chairman and Managing Director
DIN: 00716869

Place : Mumbai
Date : 12th February, 2021

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सी-47, प्रथम तल, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद, यूपी-201001

सांकेतिक कच्चा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिष्कारण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तत्कालीन कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निर्माकित दिनोंको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत संपत्ति का कच्चा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, के प्रभार वारंसे निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर बन्ध का ब्याज, आकरिमिक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिष्कारणियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख कच्चा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण
1	श्री दलीप कुमार, श्री मांके राम और श्रीमती नाथो देवी, सभी निवासी: मकान नं. 20, निहाल कॉलोनी, बजधड़ा चौक के पास, गुडगांव, हरियाणा, भारत-122001	11-09-2020 12-02-2021 सांकेतिक	₹ 9,20,780/- दिनांक 31.08.2020 तक और भविष्य का ब्याज	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 20/2, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, जिसका कर्ज क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट, खेत नं. 3622/3429 एमआई, खाली नं. 3969, मुक्तिल नं. 73, किला नं. 22/113(0-7-0) विहायशी कॉलोनी डिसे अब निहाल कॉलोनी, बजधड़ा चौक, राम लाला मेदान के पास, गुडगांव, हरियाणा में स्थित, चौकड़ी: पूरब में - लेखराम का प्लॉट, पश्चिम में - 150 चौकी रोड, उत्तर में - जगपाल का प्लॉट, दक्षिण में - सिम सिवाना सराय एलवर्दी
2	श्री शमशेर आलम और श्रीमती रेहाना पर्विन, मकान नं. 86, नया गॉव, कृष्णा कुंज, गली नं.16, गुरुनानक स्कूल के पास मोडवडी, गुडगांव, हरियाणा, 122102	04-09-2020 12-02-2021 सांकेतिक	₹ 21,18,096.00 दिनांक 31.08.2020 तक और भविष्य का ब्याज	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 86, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, ब्लॉक नं. 04, नया गॉव के पास, कृष्णा कुंज, गली नं. 16, मोडवडी, कृष्णा कुंज, गुरुनानक स्कूल के पास गुडगांव, हरियाणा में स्थित
3	श्रीमती सुमित्रा देवी और श्री बलजीत यादव, दोनों: मकान नं. 73ए, सेक्टर 22डी के पास, मोलादेड़ा (85) पालम रोड, गुडगांव, हरियाणा- 122015	04-09-2020 12-02-2021 सांकेतिक	₹ 17,31,770.00 दिनांक 31.08.2020 तक और भविष्य का ब्याज	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति बी-517, क्षेत्रफल 1465 वर्ग फीट, पंचवा तल, टॉवर टी-5, आशिया मुलबरी, सेक्टर-2, सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा में स्थित

दिनांक : 13-02-2021, स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

MPS INFOTECNICS LIMITED

CIN : L30007DL1989PLC131190
Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Half Year Ended September 30,2020 (INR In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31-Dec-20 Un-audited	30-Sep-20 Un-audited	31-Dec-19 Un-audited	31-Dec-20 Un-audited	31-Dec-19 Un-audited	
1	Total income from operations (net)	9.03	10.23	347.24	26.73	803.96	814.19
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	(136.22)	(143.79)	(113.26)	(420.82)	(402.76)	(561.66)
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(132.92)	(140.49)	(211.81)	(410.92)	(697.81)	(330.93)
4	Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes)	(133.23)	(140.81)	(211.43)	(411.87)	(697.27)	(332.20)
5	Equity Share Capital (Face Value Rs.1/- per share)	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37
6	Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity)						
7	Earning Per Share (Basic)	(0.00)	(0.004)	(0.006)	(0.01)	(0.018)	(0.009)
8	Earning Per Share (Diluted)	(0.00)	(0.004)	(0.006)	(0.01)	(0.018)	(0.009)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com.

For MPS Infotecnics Limited
Sd/-
Peeyush Kumar Aggarwal
Chairman
DIN:00090423

Place : New Delhi
Date: 12.02.2021

जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1978PLC009181
पंजीकृत कार्यालय : टी-210 जे, शाहपुर जाट, नई दिल्ली- 110 049, दूरभाष : 011-46181100 & 46109900,
फैक्स : 01126493841 वेबसाइट: www.jagsonpal.com, ई-मेल: cs@jagsonpal.com

31.12.2020 को समाप्त तिमाही/नौमाही के उद्धरित स्टैंडअलोन अनअंकेषित वित्तीय परिणाम

विवरण	स्टैंडअलोन					समाप्त 12 महीने 31.03.2020 अंकेषित
	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त 12 महीने 31.03.2020 अंकेषित	
	31.12.2020 अनअंकेषित	30.09.2020 अनअंकेषित	31.12.2019 अनअंकेषित	31.10.2019 अनअंकेषित		
परिचालन से कुल आय	5710.43	5635.27	4201.04	14510.91	12905.03	15856.78
कर पश्चात् साधारण गतिविधियों से नेट लाभ	543.03	400.88	228.32	1195.94	631.60	787.08
कर पश्चात् अर्थात् के लिए नेट लाभ (असाधारण मदों के पश्चात्)	543.03	400.88	228.32	1195.94	631.60	787.08
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ/हानि (कर पश्चात्)	543.03	400.88	228.32	1195.94	631.60	787.08
प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपिटल (5/- ₹-को मूल्य के प्रत्येक शेयर)	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90
प्रति शेयर आय (सालाना नही)						
बैसिक (₹-)	2.07	1.53	0.87	4.57	2.41	3.00
डायल्यूटेड (₹-)	2.07	1.53	0.87	4.57	2.41	3.00

टिप्पणी:

- उपरोक्त वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षकों की कमेटी द्वारा समीक्षा करने के उपरान्त निदेशकों के मंडल द्वारा फरवरी 12, 2021 को हुई उनकी बैठक में अनुमोदित एवं रिजर्व में लिए गये। अनअंकेषित परिणामों का कम्पनी के वित्साहट (www.jagsonpal.com) एवं बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं एनएसई की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।
- आईएसबी एएस 18, के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एक रिपोर्टिग व्यवसाय i.e 'फार्मास्यूटिकल्स' का संचालन करती है।
- मौजूदा अवधि के आंकड़ों के साथ मेल खाने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले अवधि के आंकड़ों के फिर से एक्जिट किए गये हैं।
- उपरोक्त परिणाम कम्पनी की वेबसाइट (www.jagsonpal.com) एवं बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं एनएसई की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।
- कम्पनी ने अप्रैल 1, 2017 से आईएसबी एएस अपनाया है एवं तदनुसार, इन वित्तीय परिणामों को आईएसबी एएस 34 के अन्तर्गत बनाये गये अंतर्गत माप विधियों की मान्यता के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 सहित अन्तर्गत बनाये गये पठित प्रसंगिक नियमन के निर्धारित पर वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार किये गये।
- 31-12-2020 को समाप्त तिमाही का राजस्व टैट ऑफ जीएसटी सूचित किया गया है।
- क्यों के लिए प्रावधान बर्तान कर मिलाकर है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड
हरसो/-
राजपाल सिंह कोचर
प्रबन्ध निदेशक
DIN No 00059492

Place : New Delhi
Date : 12-02-2021

मंगलम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 101सी, मूल, कुंदन हाउस, हरभंगर आकाम, मंगल रोड, नई दिल्ली 110014
CIN: L74899DL1984PLC017356 दूरभाष: +91 332248 2391/2/3, फैक्स: +91 33 22489382
ई-मेल: info@manglamingineering.com वेबसाइट: www.manglamingineering.com
31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए अनअंकेषित वित्तीय परिणाम का निष्कर्ष (₹ लाख में), (द्वितीय प्रतिबंधित)

विवरण	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
	को समाप्त तिमाही (अनअंकेषित)	को समाप्त तिमाही (अनअंकेषित)	को समाप्त वर्ष (लेखा परोक्षित)
परिचालन से कुल आय (मिशन)	1.83	2.25	32.26
कर पूर्व साधारण कार्यकाल से निचल लाभ/हानि	(0.46)	0.60	21.26
करपूर्व अर्थात् नेट निचल लाभ/हानि (असाधारण मदों के उपरान्त)	(0.51)	0.60	21.25
जमाई के लिए कुल परिवर्तन आय	4.26	(58.76)	(109.77)
इक्विटी शेयर पूंजी	122.50	122.50	122.50
प्रति शेयर उपलब्ध (असाधारण मदों के उपरान्त) (₹. 10/- प्रत्येक) (₹. में)	(0.04)	0.05	1.73
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (असाधारण मदों के उपरान्त) (₹. 10/- प्रत्येक) (₹. में)	(0.04)	0.05	1.73
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (असाधारण मदों के उपरान्त) (₹. 10/- प्रत्येक) (₹. में)	(0.04)	0.05	1.73
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (असाधारण मदों के उपरान्त) (₹. 10/- प्रत्येक) (₹. में)	(0.04)	0.05	1.73

टिप्पणी:

- उपरोक्त विवरण बोर्ड (सुचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकृत आवश्यक्तार्) अधिनियम, 2015 के विनियम 33 सहित सार-सार पर अन्य शर्तों के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत करके एक्सप्रेस लि. के पास सार तिमाही के लेखा परोक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारंभ का निष्कर्ष है। तिमाही के लेखा परोक्षित वित्तीय परिणामों का समग्र रूप से सार-सार पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त परिणामों की लेखा परोक्षित कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है तथा 12 फरवरी, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उक्त अनुमोदित किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
निदेशक
समान: कोलकाता
तारीख: 12 फरवरी, 2021

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)
कच्चा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN: L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्की/रिजिस्ट्रेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्की/रिजिस्ट्रेशन एंड एंडेंट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्की/रिजिस्ट्रेशन एंड एंडेंट एक्ट, 2002 के साथ पठने हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विरुद्ध भटी उर्फ विरेन्द्र भटी उर्फ विरेन्द्र और रेखा भटी उर्फ रेखा को 24.02.2020 को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDM700289288 की राशि ₹.21,19,787/- (रुपए इक्कीस लाख उन्नीस हजार सात सौ सत्तारसी मात्र) और 19.02.2020 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकाना करने का आवाहन करते हुए अभिप्राय सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकाना करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्की/रिजिस्ट्रेशन एंड एंडेंट एक्ट (एफोर्समेंट) 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 10.02.2021 को संपत्ति पर अधिपत्य कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि ₹.21,19,787/- (रुपए इक्कीस लाख उन्नीस हजार सात सौ सत्तारसी मात्र) 19.02.2020 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कतने के लिए उपलब्ध समय की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

Particulars	31.12.20 (Unaudited)	31.12.20 (Unaudited)	31.12.19 (Unaudited)
	Total Income	11.15	20.99
Profit before Tax	(2.25)	(6.35)	24.67
Profit for the period	(4.72)	(12.27)	24.37

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi-110 001.
(CIN: L74899DL1995PLC069631)

Place : Mumbai
Date : 12 February 2021

For and on behalf of the Board of Directors
Divyesh B. Shah
Whole-time Director & COO

Dhani Services Limited

(Formerly known as Indiabulls Venture Limited)
Extract of Unaudited Consolidated Financial Results
for the quarter and nine months ended 31 December 2020 (₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
		31.12.20 (Unaudited)	31.12.20 (Unaudited)	31.12.19 (Unaudited)
1.	Total income from operations (net)	325.53	1,071.58	859.90
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(85.03)	(17.66)	136.89
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(85.03)	(17.66)	136.89
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(79.53)	(65.47)	103.95
5.	Total comprehensive income for the period	(81.81)	(63.66)	80.60
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 2/- per Equity Share)	114.54	114.54	114.88
7.	Earnings per Share (EPS) (Face Value of ₹ 2/- per Equity Share) *EPS for the quarters and nine months not annualised)	(1.38)*	(1.13)*	1.69*
	-Basic (Amount in ₹)	(1.38)*	(1.13)*	1.69*
	-Diluted (Amount in ₹)	(1.38)*	(1.13)*	1.66*

Notes:

- Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on the Company's website (http://www.dhani.com) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) and NSE (http://www.nseindia.com).

Notes to the Financial Results:

- The above results have been reviewed by the audit committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 12 February 2021.

Key Standalone Financial Information: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
	31.12.20 (Unaudited)	31.12.20 (Unaudited)	31.12.19 (Unaudited)
Total Income	11.15	20.99	35.22
Profit before Tax	(2.25)	(6.35)	24.67
Profit for the period	(4.72)	(12.27)	24.37

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi-110 001.
(CIN: L74899DL1995PLC069631)

Place : Mumbai
Date : 12 February 2021

For and on behalf of the Board of Directors
Divyesh B. Shah
Whole-time Director & COO

NIKKI GLOBAL FINANCE LIMITED

Registered Office: I-9, LGF, Lajpat Nagar -I, New Delhi -110024
CIN: L65999DL1986PLC024493
Telefax: +91-11-64000323 | Web: www.nikkiglobal.com | E-mail: info@nikkiglobal.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Three months ended	Preceding three months ended	Corresponding three months ended in the previous year	Year to date figures for the current period ended	Year to date figures for the previous period ended	Previous Financial Year ended
		31/12/2020 Un-audited	30/09/2020 Un-audited	31/12/2019 Un-audited	31/12/2020 Un-audited	31/12/2019 Un-audited	
1	Total Income from operations (net)	6.20	0.11	6.62	6.59	36.14	37.05
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	0.71	(2.29)	(7.38)	(0.73)	(14.11)	(17.56)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	0.71	(2.29)	(7.38)	(0.73)	(14.11)	(17.56)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	0.71	(2.29)	(7.38)	(0.73)	(14.11)	(17.56)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.71	(2.29)	(7.38)	(0.73)	(14.11)	(17.56)
6	Equity Share Capital	341.97	341.97	341.97	341.97	341.97	341.97
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet)	-	-	-	-	-	181.44
8	Earnings per share (Face Value Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations): (a) Basic (b) Diluted	0.02 0.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

Note :

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12.02.2021 and the Statutory Auditor of the Company has issued their Limited Review Report on the same.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2015). The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.nikkiglobal.com).

For Nikki Global Finance Limited
Sd/-
(Ashesh Agarwal)
Managing Director
Date : 12.02.2021
Place: New Delhi
DIN: 02319026